



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 पौष 1931 (श0)  
(सं0 पटना 17) पटना, मंगलवार, 5 जनवरी 2010

सं0 3ए-2-वे0पु0(भत्ता)-17/09—12417/वि(2)

वित्त विभाग

संकल्प

31 दिसम्बर 2009

विषय—वेतन समिति की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य विभाग के अधीन नर्सों एवं ए0एन0एम0, एल0एच0भी0 को दिये जाने वाले वर्दी, धुलाई एवं नर्सिंग भत्ता के पुनरीक्षित दर की स्वीकृति के संबंध में ।

केन्द्रीय षष्ठम वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में केन्द्रीय कर्मियों के वेतन एवं भत्तों का पुनरीक्षण किया गया था । उक्त के आलोक में केन्द्रीय कर्मियों की भांति राज्य कर्मियों को पुनरीक्षित वेतन तथा भत्ते आदि पर सम्यक् अनुशंसा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा वेतन समिति का गठन किया गया ।

(2) राज्य सरकार द्वारा गठित वेतन समिति/त्रिसदस्यीय समिति की अनुशंसा पर सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अधीन नर्सों एवं ए0एन0एम0, एल0एच0भी0 को दिये जाने वाले वर्दी, धुलाई एवं नर्सिंग भत्ता के पुनरीक्षित दर की स्वीकृति निम्न दर पर दी जाती है :-

- |                    |  |
|--------------------|--|
| (क) वर्दी भत्ता-   | (i) नर्स- 3000 रु0 प्रतिवर्ष,                    |
|                    | (ii) ए0एन0एम0 एवं एल0एच0भी0- 1500 रु0 प्रतिवर्ष, |
| (ख) धुलाई भत्ता-   | (i) नर्स- 120 रु0 प्रतिमाह,                      |
|                    | (ii) ए0एन0एम0 एवं एल0एच0भी0- 60 रु0 प्रतिमाह,    |
| (ग) नर्सिंग भत्ता- | नर्स- 1000 रु0 प्रतिमाह,                         |

(3) यह आदेश दिनांक 01 जनवरी 2010 से प्रभावी होगा ।

आदेश—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

रवीन्द्र पवार,

सचिव (संसाधन) ।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 17-571+500-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>